

दिनांक 01 जुलाई, 2017 को सायं 04:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ आई.सी.ए.आई. के संयुक्त तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भाषण का लाइव टेलीकास्ट का आयोजन किया गया। यह लाइव टेलीकास्ट आई.सी.ए.आई. भवन न्यू दिल्ली से किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने कहा कि इस अवधारणा से सहमत हूँ कि कारोबार में नए करों के बदलाव की प्रणाली आने पर अनेक प्रश्न सभी के समझ उठते हैं और धीरे-धीरे नई प्रणाली के तहत सभी की आदत पड़ जाती है और परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि उपस्थित सभी को इस प्रणाली को लेकर मन में जो आशाकाएं हैं वह आज के आयोजित सत्र में उपस्थित पैनल के विशेषज्ञ एवं अधिकारीगण समाप्त करेंगे।

सत्र में जी.एस.टी. विशेषज्ञों एवं अनुभवी वक्ताओं द्वारा जी.एस.टी. पर एक पैनल वार्ता का आयोजन किया गया। परिचर्चा में विषय विशेषज्ञ सी.ए. धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, कर सलाहकार अधिवक्ता संतोष गुप्ता, वस्तु एवं सेवा कर विभाग के मास्टर ट्रेनर श्री विशाल पुंढीर, विधान परिषद् सदस्य श्री अरुण पाठक एवं मर्चेट्स चैम्बर के वरिष्ठ सदस्य श्री अविनाश चतुर्वेदी ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर अब एक वास्तविकता बन चुका है तथा अब इसका सहजता से सामना करना है और इससे आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में सुगमता एवं सरलता आ जायेगी और ये आम आदमी के अनुकूल, ब्यापार एवं उद्योग के लिए लाभ, अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद एवं सुदृढ़ आर्थिक भारत का निर्माण होगा। कर व्यवस्था में विषमता एवं विसंगतियों को दूर करनेका प्रयास किया जाएगा।

माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया गया।

यह सी.ए. संस्थान के लिए सौभाग्य के बात है कि इस नई कर वयस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट के महत्व को रेखान्तिक करती है। उपस्थित जन मानस की समस्याओं का समाधान किया। इसके उपरांत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सदस्यों बढ चढ भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन की.आई.आर.सी. के चेयरमैन सी.ए. दीप कुमार मिश्र ने किया एवं धन्यवाद-ज्ञापन श्री अविनाश चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, व्यापार कमेटी, ने पस्तुत किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य:

उक्त सत्र में श्री ए.के. सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., सी.ए. प्रशांत सिंह, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश तथा सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल के सदस्यगण, व्यापारीगण तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश